

The BSE Ltd.
BSE's Corporate Relationship Department 1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P.J. Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai 400 001

National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza" Bandra-Kurla Complex Bandra (E) Mumbai- 400 051

SRF/SEC/AGM-49/2020

22nd July, 2020

Dear Sir,

Sub: Publication of Notice of 49th Annual General Meeting- SRF Limited

In Compliance with Regulation 30(2) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith copies of Newspaper publication regarding Information of forty ninth AGM of the Company published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) newspaper, pursuant to Ministry of Corporate Affairs Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020. Copies of said advertisement are also available on the website of the Company at www.srf.com

This is for your information and record, please.

Thanking you,

Yours faithfully, For **SRF LIMITED**

Rajat Lakhanpal

VP (Corporate Compliance) & Company Secretary

Encl: A/a

SRF LIMITED
Block - C, Sector - 45
Gurugram - 122 003
Haryana, India
Tel: +91-124-4354400
Fax: +91-124-4354500
Email: info@srf.com
Website: www.srf.com

Regd. Office: Unit No. 236 and 237, 2nd Floor, DLF Galleria, Mayur Place Noida Link Road Mayur Vihar Phase I Extension Delhi -110 091

CIN: L18101DL1970PLC005197

FINANCIAL EXPRESS

ASIA PACK LIMITED Registered Office: 3rd Floor, Mirai Campus. Uper Ki Oden, Nathdwara, Rajsamand, Rajasthan, India, PIN-313301 Tel. No.: 02953-331201. Fax No.: 02953-331204

CIN: L74950RJ1985PLC003275 E-Mail: arpit.lodha@mirajgroup.in Website: www.asiapackltd.com

NOTICE Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, the 31st day of July, 2020 at Registered Office of the Company at 3rd Floor, Miraj Campus, Uper Ki Oden, Nathdwara, Rajsamand, Rajasthan, India, PIN-313301, inter-alia, to consider and approve the audited financial results of the company for the guarter and year ended 31st March, 2020.

The information contained in the said notice is available on the Compan website i.e. www.asiapackltd.com and also on the website of the stock exchange i.e. www.bseindia.com. For Asia Pack Limited

Place: Nathdwara |Date: 21st July, 2020

Arpit Lodha Company Secretary and Compliance Officer

PUBLIC ANNOUNCEMENT Pursuant to Regulation 31(2) read with regulation 12(3) of the Insolvency and

Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations 2016 In the matter of ROYAL PRESSING AND COMPONENTS PRIVATE LIMITED

(CIN: U289390L2006PTC136736) (IN LIQUIDATION) All concerned are hereby informed that the undersigned acting as Liquidator in th marker of ROYAL PRESSING AND COMPONENTS PRIVATE LIMITED (in Legislation)

has Bied the list of stakeholders electronically with the Honble National Company Law Tribunal, Bench IV, New Delhi, on 20th July, 2020 pursuant to the provisions of Regulation 31(2) read with Regulation 12(3) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India-(Liquidation Process) Regulations 2016.

The List of Stakeholders showing complete details of the amount admitted by the Liquidator, including modified amount, from time to time, can be viewed on the website of the Corporate Debtor, at the following link:

www.royalpressing.in The Stakeholders are further notified that any modification of entries in the List of Stakeholders, as filed with the Honble NCLT, Bench-IV New Delhi Bench can be made

only after obtaining approval of the Honble NCLT, Blench-IV, New Delhi Date: 21:07:2123 Liquidator - ROYAL PRESSING AND COMPONENTS PREVATE LIMITED Place: New Delts. REG NO: 1889/PA-001/P-PDI281/2018-2019/12893

PUBLIC NOTICE

Before the Regional Director, Northern Region, New Delhi Ministry of Corporate Affairs,

B-2 Wing, 2nd Floor, Antodaya Bhawan (Parvayran Bhawan), CGO Complex, New Delhi-110003 In the matter of the Companies Act, 2013, Section 13(4) of Companies Act, 2013

In the matter of M/S SIX RED MARBLES LEARNING PRIVATE LIMITED, CIN: U80302DL2012PTC230269

and Rule 30(6) (a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 And

having its Registered Office at 2nd Floor, Awfis Space Solutions, The Great Eastern Centre (Ryder House), 70 Nehru Place, New Delhi-110019

Petitioner NOTICE is hereby given to the General Public that the Company propses to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 8th day of July, 2020 to enable the company to change its Registered office from "NCT of Delhi" to "the State of Tamil Nadu" within the Juridiction of Registrar of Companies, Chennal.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filling investors complaint from or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor, Antodaya Bhawan (Parvayran Bhawan), CGO Complex, New Delhi-110003, within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the petitioner/applicant company at its registered office at the address mentioned

Registered Office: 2nd Floor, Awfis Space Solutions, The Great Eastern Centre, (Ryder House), 70 Nehru Place, New Delhi-110019

For and on behalf of For Six Red Marbles Learning Private Limited

DIN No.: 02689371

Premamala Ramalingam

Date : 8th July, 2020 Place : Chennai

> VIRTUAL GLOBAL EDUCATION LIMITED CIN: L67120DL1993PLC052256 Regd. Off: - 103, Palco House 2162/T-10, Main Patel Road, New Delhi-110008

E-mail Id: csvirtualeducation@gmail.com, Website: www.vgel.co.in, Ph: 011-25702148 NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the 1" Meeting of the financial year 2020-2021 of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, July 30, 2020, at 03:00 P.M. at registered office of the Company inter-alia, to consider and approve the Audited Financial Results of the Company for the quarter and Year ended March 31, 2020 and any other item with the permission of Chair. The said Notice and the Financial results may be accessed under Investors Relations Section on the website of the Company and Stock Exchange i.e. www.vgel.co.in and

www.bseindia.com., respectively. For Virtual Global Education Limited

Neeraj Kaushik Place: New Delhi Director DIN: 02462310 Date: 21.07.2020

Madhav Marbles and Granites Limited CIN: L14101RJ1989PLC004903

Regd. Off.: First Floor, "Mumal Towers", 16, SaheliMarg Udaipur-313001, Web: www.madhavmarbles.com Email:investor.relations@madhavmarbles.com Tel: 0294-2981666

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, July 28, 2020 inter alia to transact the

1. To consider and approve the audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and period ended March 31, 2020.

To consider and approve re-appointment of Mr. Sudhir Doshi as Whole Time Director

3. To consider any other business with the permission of Chair. The Trading Window for dealing in the shares of the Company shall remain closed till 48

hours of the date of declaration of the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2020 By Order of the Board

For Madhav Marbles and Granites Limited

Priyanka Manawat Date: July 21, 2020 Company Secretary

"Form No.INC-26"

(Pursuant to rule 30 the companies (Incorporation) Rules, 2014) Advertisement to be published in the newspaper for change Of

Registered Office of the Company for one

state to another Before the Central Government Northern Region, New DelhiRegion n the matter Of Sub-Section (4) of The Section 13 Of The CompaniesAct, 2013 And Clause (A) of Sub-rule(5) of rule 30 of the companies

Incorporation Rules, 2014

In The Matter Of: Ethicscare Clinical Research ServicesPrivate Limited Having Its Registered Office at DSS, 110, MDS, Sector 5, Panchkula, Haryana -134114

company proposes to make application to the Central Governmentunder section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Annual General Meeting/ Extra ordinary general meetingheld on 15 th June, 2020 to enable the company to change its Registered Office from "State of Haryana" to "State of Punjab". Any person whose interest is likely to be affected by

the proposed change of the registered office of the company maydeliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be deliveredor send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address Northern RegionNew Delhiwithin fourteen days of thedate of publication of this notice with a copy to the

applicant company with a copy of the applicant company at its registered office at the address entioned below: For and on behalf of the applicant

Date: - 22. July .2020 SHASHANK GAUR Place: - Panchkula

FORM INC-26

(Pursuant to Rule 38 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014). Astwardsament to be published in the newspaper for Change of flags lared office of the company from one State to another.

BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION, NEW DELHI N THE MATTER OF SECTION 13(4) of the Companies Act, 2013 and Rule 30(5) (a) & 30 (6) of the Companies (incorporation) Rules, 2014.

IN THE MATTER OF LARISSA BUILDERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED. ICIN: U45201DL2606PTC148081) Registered Office at #14, First Floor, Rani Jhansi Broad, New Delhi - 110055, Central Delhi .Pettioner

Notice is thereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under Section 13 of the companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company interms of the special resolution passed at the Estra Ordinary General Meeting held on 27* June, 2020, to enable the company to change its Registered office from "National Capital Territory Delhi" to "State of Telangara"

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed Change of registered. thos of the company may deliver either on the MCA-21 Portal (WWW mca pox in) by thing investor compliant form or caused to be delivered or send by registered post of his her objections supported by an affidavit stating nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, at the address B-2 Wing, 2nd loce Parsonner Shawen, CGO Complex, New Delhi - 110 000 withinfourteen (14) days. of the date of publication of their about the population applicant company at its registered. office at the address mensoned above

For LARISSA BUILDERS & DEVELOPERS PRIVATE LINITED

SATISH MANI SAMBANDAN DIRECTOR

यूनियन बैंक 🕼 Union Bank ी आन्ध्रा Andhra कि corporation

Place: Defni

Date: 21/07/2020

Asset Recovery Management Branch, 116, F 14, Competent House, Connaught Circus, New Delhi 110001

APPENDIX-IV. Rule 8 (1) Possession Notice (For immovable property) Whereas, the undersigned being the authorized officer of the Union Bank of India

(erstwhile Corporation Bank), under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 13.02.2019 calling upon the borrower 1. Shri Mr. Devender Singh Malik S/o Sh. Avtar Singh 2. Mrs. Kaushal Devi W/o Mr. Devender Singh Malik both resident of 2/72, Sector 5, Block -2, Rajender Nagar, Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 1,61,37,359.00 (Rupees One Crore Sixty One Lakhs Thirty Seven Thousand Three Hundred Fifty Nine only) within 60 days from the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of Section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement Act rule 2002, on this the 20th day of July of the year 2020

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Union Bank of India (erstwhile Corporation Bank) for an amount Rs. 1,61,37,359.00 (Rupees One Crore Sixty One Lakhs Thirty Seven Thousand Three Hundred Fifty Nine only) as on 13.02.2019 and interest & cost thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of the Immovable Property

All that piece and parcel of Equitable mortgage of property at House No 2/72, Block-2, Sector 5, Rajender Nagar, Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh in the name of Sri Devender Singh Malik, Deed No 2234, dated 11.3.2005 for area 289.86 sq. meter at Registrar Ghaziabad, Bounded as : North - Plot No 73, South - Plot No 71, East - Plot no 67. West - Road 40 feet wide

Date: 20-07-2020, Place: New Delhi Authorised Officer, Union Bank of India

NIRAJ ISPAT INDUSTRIES LIMITED Regd. Office: 5140-41/34, F/F Chaudhary Market GaliPetiWali, RuiMandi, Sadar Bazar,

North Delhi- 110006 (E) niralispatindustries@gmail.com. (W)www.niraiispat.in CIN: L27106DL1985PLC021811, Phone: 011-23551821,

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday,22™July, 2020 at 03:00 P.Mat the Regd. Office of the Company, interalia, to consider and take on record the Audited Financial Results for the Year ended 31 March. 2020and any other businesses as may be considered necessary. By order of the Board

For Nirailspat Industries Limited (Haryant Kumar Chaudhry) Place: New Delhi Date: 14.07.2020 DIN: 00021795 KD- 46, Kavi Nagar, Ghaziabad- 201002

TINNA TRADE LIMITED Regd. off.: No. 6, Sultangur, Mandi Road, Mehrauli, New Delhi-110030

Tel.: 011-49518530 Fax: 011-26804883 E-mail: investor.ttl@tinna.in, www.tinnatrade.in CIN: L51100DL2009PLC186397

NOTICE Notice is hereby given in terms of Regulations

29 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 29th July, 2020, at the Registered Office of the company, inter-alia, to consider and approve the consolidated Audited Financial results of the Company for Quarter and Year ended on 31st March, 2020. The information contained in this notice is also

available on Company's website at www.tinnatrade.in and also on the website of Stock Exchange, i.e. www.bseindia.com For Tinna Trade Limited

Place: New Delhi Monika Gupta Company Secretary Date: 21.07.2020



Regd. Office: SCO - 64-65, 3rd Floor, Sector - 17A

Chandigarh - 160 017 Phone: 0129-2564116 E-mail: escortsfinance@escorts.co.in Website: www.escortsfinance.com

(Under Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and

NOTICE

Disclosure Requirements) Regulations, 2015} Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, July 25, 2020, inter-alia, consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2020. The financial results shall be subject to limited review by the Statutory Auditors of the Company.

Further the said information is also available on the Company's website at www.escortsfinance.com and may also be available on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com. By the order of the Board

For Escorts Finance Limited Place: Faridabad Data - 21.07.2020 Vicky Chauhan Date : Company Secretary

SHARE INDIA SECURITIES LIMITED Reg. Office: 6th Milestone, New Bhai-Chara Complex, Opp. Mata Mandir, Chikambarpur UP Border Sahibabad, Uttar Pradesh-201006 Tel: +91-11-43011000

CIN: L67120UP1994PLC050209 Email: vikas_cs@shareindia.com CORRIGENDUM This is to inform you that financial results for Quarter and Financial Year ended 31" March, 2020, of M/s Share India Securities Limited were published in this

newspaper on 19" July, 2020, in which Profit Before tax for Standalone Financial Results was inadvertently incorrect. So, the Profit Before tax:-Quarter Ended Year Ended Quarter Ended Year Ended 31/03/2020 31/03/2019 18.71.92.510 2.59.98.51.832 54.63.44.917 1.97.25.88.692

18,71,92,689 43,78,14,748 7,32,04,316 33,91,20,061 Respectively. The rest shall remain the same. For Share India Securities Limited Place : Delhi Parveen Gupta, Managing Director, DIN: 00013926 Date : 21. 07. 2020



SRF LIMITED CIN: L18101DL1970PLC005197

Registered Office: The Galleria, DLF Mayur Vihar, Unit No. 236 & 237, Second Floor, Mayur Place, Mayur Vihar Phase I Extn, Delhi - 110091 Corporate Office: Block C, Sector 45, Gurugram-122003

Tel: +91-124-4354400, Fax No: +91-124-4354500 Email: cs@srf.com; Website: www.srf.com

INFORMATION REGARDING FORTY NINTH ANNUAL GENERAL MEETING OF SRF LIMITED

49th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") on Monday, August 17, 2020 at 11:00 a.m. IST, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Listing Regulations, read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and 20/2020 dated May 5, 2020, and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC at https://emeetings.kfintech.com Members participating through the VC facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In compliance with the relevant circulars, electronic copy of the Annual Report for financial year 2019-20 and Notice of the AGM will be sent to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.srf.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on the website of Company's Registrar and Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited ("KFinTech"), at https://evoting.karvy.com. Members who have not registered their E-mail address may temporarily get their E-mail address and mobile number registered with the Company's Registrar, by clicking the link: https://ris.kfintech.com/email_registration/ for getting the soft copy of the notice and e-voting instructions along with the User ID and Password. In case of any query, member may write to einward.ris@kfintech.com.

Members may also update their details with the Depository Participant in case of shares held in electronic form and with the Company's Registrar in case the shares held in physical form.

The manner of voting remotely ("remote e-voting") has been provided in the Notice of the AGM. The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM ("Insta Poll").

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or through Insta Poll during the AGM.

Members are requested to register/update their complete bank details for the purpose of dividend with:

their Depository Participant(s), if shares are held in electronic mode and Company's Registrar by submitting (i) scanned copy of the signed request letter which shall contain member's name, folio number, bank details (Bank account number, Bank and Branch Name and address, IFSC, MICR details), (ii) self-attested copy of the PAN card and (iii) cancelled cheque

leaf at einward.ris@kfintech.com, if shares are held in physical mode. for SRF LIMITED

> Rajat Lakhanpal VP (Corporate Compliance) & Company Secretary

PAN INDIA CORPORATION LIMITED

(CIN: - L72200DL1984PLC017510) Regd. Off.- 711, 7th Floor, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi - 110001 Email: srgltd@gmail.com, Website: http://www.panindiacorp.com, Tel. No. 011-43656567 EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

(Pursuant to Regulation 47 (1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2017) (Amount Rs. In Lacs)

S. No.	Particulars	Year Ended 31st March, 2020 (Audited)	Year Ended 31st March, 2019 (Audited)	Quarter Ended 31st March, 2020 (Audited)	Quarter Ended 31st March, 2019 (Audited)
1	Total Income from Operations (Net)	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Net Profit/Loss for the period (before tax, Exceptional and /or Extraordinary Items)	2.08	(443.28)	(2.75)	(6.52)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2.08	(443.28)	(2.75)	(6.52)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1.56	(443.28)	(2.16)	(6.52)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1.56	(443.28)	(2.16)	(6.52)
6	Paid - up equity share capital (face value of Rs. 10/- each)	21,425.65	21,425.65	21,425.65	21,425.65
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as show in the Audited balance sheet of the previous year)	na ,	23	4	N.
8	Earnings Per Share (EPS) (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)				
	a. Basic	0.0007	(0.2069)	(0.0010)	(0.0030)
	h. Diluted	0.0007	(0.2069)	(0.0010)	(0.0030)

The above Audited Standalone Financial Statements/Results for the Quarter and Year Ended as on 31st March 2020, have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in their Meetings held on

The previous year figures have been regrouped, re-classified and recasted wherever necessary. The Company operates in only one segment.

The Figures for the guarter ended 31st March, 2020 and 31st March, 2019 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published figures for the nine months ended 31st Dec, 2019 and 31st Dec. 2018 respectively.

> By the order of Board of Directors For PAN INDIA CORPORATION LIMITED VIJAY PAL SHUKLA (Managing Director)

DIN: 01379220

(CIN:- L72200DL1992PLC241971)

Regd. Off.- 711, 7th Floor, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi - 110001 Email: bitsltd@gmail.com, Website: http://www.bits.net.in, Tel. No. 011-43656567 EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

(Pursuant to Regulation 47 (1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2017) (Amount Rs. In Lacs)

Quarter 31st March. 31st March. Ended 31st Ended 31st Particulars 2019 March, 2020 | March, 2019 2020 (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) 73.46 16.64 18.40 Total Income from Operations (Net) 72.40 Net Profit/Loss for the period (before tax, Exceptional and /or Extraordinary Items) 1.32 0.05 5.50 0.37 Net Profit/(Loss) for the period before tax (after 1.32 Exceptional and/or Extraordinary items) 0.05 5.50 0.37 Net Profit/(Loss) for the period after tax (after 4.56 Exceptional and/or Extraordinary items) 0.04 0.36 1.32 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/Loss for the period (after tax) 0.87 7.28 4.11 3.98 and Other Comprehensive Income (after tax)] Paid - up equity share capital (face value of 2,237.50 Rs. 2/- each) 2,237.50 2,237.50 2,237.50 Reserve (excluding Revaluation Reserve) as show in the Audited balance sheet of the previous year) Earnings Per Share (EPS) (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations) 0.0065 0.004 0.0036 0.0008 b. Diluted 0.0065 0.004 0.0036 0.0008

The above Audited Consolidated Financial Results for the Quarter and Year Ended as on 31st March, 2020, have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in their Meetings held on

By the order of Board of Directors For BITS LIMITED

The previous year figures have been regrouped, re-classified and recasted wherever necessary.

OMPRAKASH RAMASHANKAR PATHAK (Managing Director) DIN: 01428320

BITS LIMITED (CIN:- L72200DL1992PLC241971)

Regd. Off.- 711, 7th Floor, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi - 110001 Email: bitsltd@gmail.com, Website: http://www.bits.net.in, Tel. No. 011-43656567 EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020 (Pursuant to Regulation 47 (1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2017)

(Amount Rs. In Lacs) Year Ended | Year Ended Quarter Quarter

S. No.	Particulars	31st March, 2020 (Audited)	31st March, 2019 (Audited)	Ended 31st March, 2020 (Audited)	Ended 31st March, 2019 (Audited)
1	Total Income from Operations (Net)	73.46	72.40	16.64	18.40
2	Net Profit/Loss for the period (before tax, Exceptional and /or Extraordinary Items)	0.05	5.50	0.36	1.32
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	0.05	5.50	0.36	1.32
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	0.04	4.56	0.35	0.38
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	0.04	4.56	0.35	0.38
6	Paid - up equity share capital (face value of Rs. 2/- each)	2,237.50	2,237.50	2,237.50	2,237.50
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as show in the Audited balance sheet of the previous year)			*	*
8	Earnings Per Share (EPS) (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations)				
	a. Basic	0.0000	0.0041	0.0003	0.0003
	b. Diluted	0.0000	0.0041	0.0003	0.0003

Date: 21.07.2020

Place: Gurugram

The above Audited Standalone Financial Results for the Quarter and Year Ended as on 31st March, 2020. have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in their Meetings held on

The previous year figures have been regrouped, re-classified and recasted wherever necessary.

The Company operates in only one segment

The Figures for the quarter ended 31st March, 2020 and 31st March, 2019 are the balancing figures between audited figures in respect of financial year and the published figures for the nine months ended 31st Dec.

> By the order of Board of Directors For BITS LIMITED

OMPRAKASH RAMASHANKAR PATHAK

(Managing Director)

DIN: 01428320

Place: New Delhi Date: 21.07.2020

2019 and 31st Dec, 2018 respectively.

PAN INDIA CORPORATION LIMITED

(CIN: - L72200DL1984PLC017510) Regd. Off.- 711, 7th Floor, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi - 110001 Email: srgltd@gmail.com, Website: http://www.panindiacorp.com, Tel. No. 011-43656567 EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

(Pursuant to Regulation 47 (1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2017)

(Amount Rs. In Lacs)

S. No.	Particulars	Year Ended 31st March, 2020 (Audited)	Year Ended 31st March, 2019 (Audited)	Quarter Ended 31st March, 2020 (Audited)	Quarter Ended 31st March, 2019 (Audited)
1	Total Income from Operations (Net)	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Net Profit/Loss for the period (before tax, Exceptional and /or Extraordinary Items)	2.08	(443.28)	(2.75)	(6.52)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,08	(443.28)	(2.75)	(6,52)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1.56	(443.28)	(2.16)	(6.52)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	8.24	(443.28)	1.18	(6.52)
6	Paid - up equity share capital (face value of Rs. 10/- each)	21,425.65	21,425.65	21,425.65	21,425.65
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as show in the Audited balance sheet of the previous year)	75	-	1	2
8	Earnings Per Share (EPS) (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)				
	a. Basic	0.0038	(0.2069)	0.0005	(0.0030)
- 1	b. Diluted	0.0038	(0.2069)	0.0005	(0.0030)

a) The above Audited Consolidated Financial Statements/Results for the Quarter and Year Ended as on 31st March, 2020, have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in their Meetings held on

b) The previous year figures have been regrouped, re-classified and recasted wherever necessary.

The Company operates in only one segment.

For PAN INDIA CORPORATION LIMITED VIJAY PAL SHUKLA (Managing Director)

By the order of Board of Directors

DIN: 01379220

financial exp

Notice is hereby given to the General Public that the

Date: 21.07.2020 Place: New Delhi

21.08.2020 at 11.00 to 13.00 Hrs. Rest all terms & conditions of e-auction will temanthesare. Authorized Officer WINSOME YARKS LIMITED (CIN : L17115CH1998PLC010566) Repd. Office: 500 191-192, Sector 34-A, Chandigarh

as mentioned below:

STATE BANK OF INDIA

SAMB: lat Floor, SCO SS-167.
Sector-8-C, CHANDICARD-168018
Engl. sbi043820355ico.in

CORRIGENDUM

in reference to E-Auction Sale

Notice under SARFAESL published

on 19.07,2020 in Financial

Express, Jansatta, Sandesh &

Desh Dewak publication, please

read the time for start of e-auction

E-AUCTION SALE NOTICE ON

Tele: 0172-4612000, Fax: 0172-4614000 NOTICE Notice is hereby given that next meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, the 30" July, 2020 at the registered office of the Company at SOO, 191-192, Sector 34-A. Chandigarh to consider and approve the Audited Financial Results of the Company for the quarter & year ended 31.03.2020.

Errail: cshare@winsomegroup.com,

Website: www.winsomegroup.com

and www.nseindia.com For and on behalf of the Board Manish Bagrodia Place: Chandgat.

The notice of the said meeting is

also available at yww.bsgindia.com

Chairman & MO Dated: 20.0T.2020 PEARL APARTMENTS LIMITED (CIN NO: L70101DL1979PLC009901) Regd. Office: 903, Rohit House, 3, Tolstoy Marg, New Delhi-110001

Tel No.: +91-11-23725826/27/28 Website: www.pearlapartments.co.in Email ld: pearl.secretarial@pearlmail.com NOTICE is hereby given pursuant to Regulations 29(1)(a) and 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, 27th July, 2020 at 903, Rohit House,

3, Tolstoy Marg, New Delhi-110001 inter-alia to

consider and approve, the Audited Financial Results of the Company for the quarter and financial year ended March 31, 2020. The said Notice may be accessed from the website of the Company at www.pearlapartments.co.in and may also be accessed from the Stock Exchange website, where the equity shares of the Company

are Listed i.e. www.msei.in (Metropolitan Stock)

Exchange of India Ltd.) For Pearl Apartments Limited Krishen Kumar Seth Chairman & Managing Director DIN:00005765 Place: New Delhi Date: 20" July, 2020

SHANTNU INVESTMENTS (INDIA) LTD CIN: L65993DL1973PLC006795 Reg Office: DSC-319, DLF South Court, Saket, New Delhi-110017

Email: cs@greatvalueindia.com,

Phone No. 011-41349612-14

Website: www.shantnuinvestments.com

NOTICE This is with reference to the captioned subject, we would like to inform you that pursuant to the provisions of SEBI (Listing) Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, The Meeting of Board of Directors of Shantnu Investments (India) Limited, which was scheduled to be held on 21" July, 2020 vide our earlier letter dated 30.06.2020, to inter alia consider and approve the Audited Financial Results for the Last Quarter and Year ended on 31" March, 2020, is now postponed and rescheduled or Thursday, 30" July, 2020 at 03:00 P.M. at the registered office situated at DSC-319, DLF

Company Secretary & Compliance Officer Place: New Delhi Date: 21.07.2020

The Company operates in only one segment.

Note:

For Shantnu Investments (India) Limited Vinay Anand

South Court, Saket, New Delhi-110017.

Note:

Place: New Delhi Date: 21.07.2020

BITS LIMITED

Year Ended Year Ended

New Delhi

Place: New Delhi

Date: 21.07.2020

भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 12(3) के साथ पठित विनियम 31(2) के अनुरूप) के मामले में

रॉयल प्रेसिंग एंड कंपोर्नेटस प्राइवेट लिमिटेड

(CIN: U28939DI2005PTC136736) - परिसमापन में भारतीय दिवाला और ऋण अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन 2016 के विनियमन 12 (3) के रेगुलेशन 31 (2) के प्रावधान 2016 के अनुसार एतद्दवारा सुचित किया जाता है कि **रॉयल प्रेसिंग एंड कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड** (परिसमापन के तहत) के मामले में परिसमापक के रूप में अधोहरताक्षरी ने 20 जुलाई, 2020 को माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली, पीठ-IV कें समक्ष इलेक्ट्रॉनिक तरीकें से हितधारकों की सूची दायर की है।

परिसमापक द्वारा स्वीकार की गई राशि का परा विवरण, वा समय-समय पर संशोधित राशि सहित हितधारकों की सूची को निम्नलिखित लिंक पर कॉर्पोरेट देनदार की वेबसाइट पर देखा जा सकता है: www.royalpressing.in

हितधारकों को यह भी सूचित किया जाता है कि माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली, पीठ -IV के पास दायर की गई हितधारकों की सूची में प्रविष्टियों के किसी भी संशोधन को केवल माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली, पीठ-IV से अनुमति प्राप्त होने के उपरांत की जा सकती है।

परिसमापक –रॉयल प्रेसिंग एंड कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड दिनांक : 21.07.2020 **स्थान**ः नई दिल्ली पंजीकृत सं.: IBBI/IPA-001/IP-P01261/2018-2019/12093

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में] एक राज्य से दुसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले में

लैरिस्सा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड (CIN: U45201DL2006PTC148081 पंजीकृत कार्यालय #14, प्रथम तल, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली-110055, मध्य दिल्ली, के मामले में

एतदद्वारा आम जनता को सचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "तेलंगना राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 27 जुन, 2020

को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके ऊपर

वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से (14) चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपित के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पते, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें: लैरिस्सा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के लिये

सतीश मणि समबन्दम निदेशक स्थानः दिल्ली तिथि: 21.07.2020 DIN: 0831801

सार्वजनिक स्वना

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन बी-2 बिंग, द्वितीय तल, अंत्योदय भवन (पर्यावरण भवन), सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (6) के खंड (अ) के मामले में

मैसर्स सिक्स रेड मार्बल्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड CIN: U80302DL2012PTC230269

जिसका पंजीकृत कार्यालय : दूसरी मंजिल, अफीस स्पेस सॉल्युशंस, द ग्रेट ईस्टर्न सेंटर (राइडर हाउस), 70 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली — 110019 में स्थित है

आम जनता को यह संचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समझ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का **पंजीकृत कार्यालय** 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से 'तमिलनाडु राज्य' में स्थानांतरित करने का प्रस्ताय है जोकि ऑफ कंपनिस चेन्नई के अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है, जिस के लिए **"दिनांक 08 जुलाई,** 2020" को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ मे कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पृष्टि की मांग की गई हैं।

कंपनी के पंजीकत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखत के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, अंत्योदय भवन (पर्यावरण भवन), सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 के पते पर पंजीकृत बाक द्वारा भेज सकता है या सुपूर्व कर सकते है और इसकी प्रति याचिकाकर्ता / आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

> पंजीकृत कार्यासय : दूसरी मंजिल, अफीस स्पेस सॉल्यूशंस, द ग्रेट ईस्टर्न सेंटर (राइडर हाउस), 70 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली - 110019

> > उनके लिए और उनकी और से

प्रेमामाला रामालिंगम तिथि : 08 जुलाई, 2020 निदेशक डीआईएन : 02689371

एलसीआरडी डिविजन/नई दिल्ली दि फैंडरल टावर्स अपर ग्राउंड फ्लोर फोन नं: 011-40733980,40733978

ई-मेलः ndllcrd@federalbank.co.in



अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण तथा पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों के विक्रय हेतु विक्रय सुचना।

एतद्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि फेडरल बैंक लि. (प्रतिभूति लेनदार) के पास नीचे लिखित बंधक/प्रभारित अचल सम्पत्ति जिसका सांकेतिक कब्जा 11.01.2016 को और भौतिक कब्जा 07.10.2016 को फेडरल बैंक लि. (प्रतिभूत लेनदार) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया गया था उसे मैसर्स वी आर एन्टरप्राइजेज के नाम पर नकद क्रेडिट खाता सं. 11055500003760 के तहत रु. 8,17,42,801/- (रुपये आठ करोड़ सत्रह लाख बयालीस हजार आठ सौ एक मात्र), मैसर्स विनोद पोपली के नाम पर सम्पत्ति पॉवर खाता 1057600002403 के तहत बकाया राशि रु. 1,46,01,179/- (रुपये एक करोड छियालीस लाख एक हजार एक सौ उन्यासी मात्र), मैसर्स मामालव ट्वॉयज प्रा.लि. के नाम पर नकद क्रेडिट खाता 11055500003943 के तहत बकाया राशि रु. २,31,01,258/- (रुपये दो करोड़ इकतीस लाख एक हजार दो सौ अट्ठावन मात्र) अर्थात कुल रु. 11,94,45,238/- (रुपये ग्यारह करोड़ चौरानबे लाख पैंतालीस हजार दो सौ अड़तीस मात्र) तथा भावी ब्याज, लागतों एवं अन्य प्रभारों जो बिक्री की उपर्युक्त तिथि को द फेडरल बैंक लिमिटेड (प्रतिभृत लेनदार) का बकाया है, की 1. श्री विनोद पोपली पुत्र श्री चमन लाल पोपली निवासी आर-608, द्वितीय तल, न्यू राजिन्दर नगर, नई दिल्ली-110060, साथ ही : 34/18, ओल्ड राजिन्दर नगर, नई दिल्ली-110060, साथ ही : 3/3, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली और मैसर्स वी आर एन्टरप्राइजेज के नाम पर व्यापार एवं शैली संचालक, दुकान नं. 4906, फूटा रोड, निकट वेस्टेंड सिनेमा, सामने ओरिएन्टल बैंक, सदर बाजार, दिल्ली-110006, साथ ही : दुकान नं. 4920/2, फूटा रोड, निकट वेस्टेंड सिनेमा, सदर बाजार, दिल्ली-110006, 2. श्रीमती रागनी पोपली पत्नी श्री विनोद पोपली निवासी 5/3, प्रथम तल, ब्लॉक-5, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110006 साथ ही : 3/3, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली, 3. श्री मानिक दवर पत्र श्री देव राज दवर निवासी : 5/3, प्रथम तल, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110006 साथ ही : 3/3, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली 4. श्रीमती मनीषा दवर पत्नी श्री मानिक दवर, निवासी : 5/3, प्रथम तल, ब्लॉक-5, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110006 साथ ही : 3/3, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली, 5. मैसर्स मामालव ट्वॉयज प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय ए76, झण्डेवालान साइकिल मार्केट, नई दिल्ली-110055 से वसूली हेतु ''जो है वहीं है'', ''जो है

यही है'' तथा ''जो कुछ भी वहीं है'' के आधार पर 11.08.2020 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य रु. 6,85,00,000/- (रुपये छः करोड़ पिचासी लाख मात्र) तथा जमा धरोहर राशि रु. 1,37,00,000/- (रुपये एक करोड़ सैंतीस लाख मात्र) अर्थात आरक्षित मूल्य का 20% होगी। आरक्षित मूल्य से कम पर संविदाएँ तुरन्त अस्वीकार कर दी जायेंगी।

प्लॉट माप 200 वर्ग गज साथ ही समस्त वर्तमान भवन एवं उस पर उन्नयन अथवा भविष्य के निर्माण, सं. 3/3, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली, सीमाएँ : उत्तर : सड़क, पूर्व : प्लॉट सं. 3/4, दक्षिण : सर्विस रोड एवं पश्चिम : प्लॉट सं. 3/2.

सम्पत्ति की बिक्री फेडरल बैंक के अधिकृत प्राधिकारी के पर्यवेक्षण में बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स 4 क्लोजर के माध्यम से ई-नीलामी द्वारा की जायेगी। ई-संविदा प्रपत्र, उद्घोषणा ऑनलाइन नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तों वाले ई-नीलामी निविदा दस्तावेज वेबसाइट https://www.bankauctions.in पर उपलब्ध हैं। सम्भावित संविदाकार ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण मैसर्स 4क्लोजर, हैदराबाद, हेल्पलाइन नं. एवं ई-मेल आईडी 0814200062/65/66 तथा ई-मेल : info@bankauctions.in तथा विकास कुमार 08142000809, 08076427383 एवं ई-मेल : vikas@bankauctions.in से प्राप्त कर सकते हैं। अन्य प्रारूप में जमा की गयी संविदाएँ विचारणीय नहीं होंगी। ईएमडी बैंक खाता 21470051030003, आईएफएससी FDRL0002147 में डिमाण्ड ड्राफ्ट, ईएमटी/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से जमा की जानी हैं। जमा की जाने वाली ईएमडी सम्पत्ति के आरक्षित मूल्य का 20% जमा की जानी है जिसे संविदा स्वीकार न होने की स्थिति में वापस कर दिया जायेगा। सफल संविदाकार को अधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात तुरन्त अर्थात उसी दिन या अधिकतम चौबीस घण्टों के भीतर पहले से प्रदत्त ईएमडी समायोजित करने के पश्चात विक्रय मूल्य का 25% जमा करना होगा जिसमें असफल रहने पर संविदाकार द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। विक्रय मुल्य का शेष 75% बिक्री की पष्टि के 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। यदि निर्धारित अवधि में शेष राशि जमा नहीं की जाती है तो जमा की गयी सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जायेगी। ईएमडी सहित संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय 10.08.2020 को 5.00 बजे अप. तक है। कथित तिथि तथा समय के पश्चात जमा की गयी कोई संविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। सम्पत्ति का विवरण, सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि, विक्रय निर्देशित करने वाले नियम एवं शर्तें एनडीएल/एलसीआरडी डिवीजन, 2/2, फेडरल टॉवर्स, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 से प्राप्त की जा सकती है। सम्पत्ति के निरीक्षण के लिए नीलामी के एक सप्ताह पूर्व तक प्रति सप्ताह एक दिन निर्धारित किया जायेगा और यह तिथि तथा समय मोबाइल नं. 9818646777, 8587822508, लैण्डलाइन नं. : 011-40733980, 40733978 से प्राप्त किया जा सकता है। सम्पत्ति की नीलामी से सम्बन्धित विस्तृत नियम एवं शर्तें एनडीएल/एलसीआरडी डिवीजन, 2/2, फेडरल टॉवर्स, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 पर प्रदर्शित की जायेंगी। इच्छुक व्यक्ति शाखा प्रमुख, एलसीआरडी डिवीजन, फेडरल बैंक से मोबाइल नं.: 9818646777 तथा कार्यालय सं.

1 .https://www.bankauctions.in 2.https://www.federalbank.co.in

शर्तों के लिए कृपया निम्नलिखित वेबसाइटों में प्रावधानित लिंक का सन्दर्भ लें :

कृते फेडरल बैंक लि. तिथिः 22.07.2020 (सरफेसी अधिनियम के तहते प्राधिकृत अधिकारी स्थानः नई दिल्ली

011-40733980,40733978,40733981 से सम्पर्क कर सकते हैं। बिक्री के विस्तृत नियम एवं

भारतीय रटेट बैंक त्यसीओ ००-१०७, मीवटर ४-मी, घंडीगढ़-१४००१४

3- 年 sbi.04262/回sbi.co.in शुद्धिपत्र

फाइनेजियल एक्सप्रैंस, संदेज व देज सेवक में दिनांक 19,07,2020 और जनसन्त में दिनांक 20,07,2020 को प्रकाणित सरफेसी के अंतर्गत इ-बीमाची विक्री सूचना के सदर्भ में इ-नीलामी जुल करने के समय को कृषधा नीचे दिए अनुसार पदा जाएं इ-नीलामी बिक्री सुबना 21.08.2020 को 11.00

बजे से 13.00 बजे तक इ-नीलामी की सभी अन्य निबंधन एवं शर्ते वहीं रहेगी। प्राधिकृत अधिकारी



केन्द्रीय भण्डारण निगम (भारत सरकार का उपक्रम) कारपोरेट ऑफिसः 4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौजखास, नई दिल्ली

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

(एनआईटी संख्याः केभनि/एफडी/एसईआईएस/2020-21) केन्द्रीय भण्डारण निगम विदेश व्यापार नीति 2015–20 की सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसईआईएस) के अंतर्गत जारी डयूटी क्रेडिट स्क्रिप्स की बिक्री हेतु खुली ई-निविदा आमंत्रित करता है। निविदा डाउनलोड करने की तिथि : 22.07.2020 से 05.08.2020 को 15.00 बजे तक

निविदा की लागत : 1180 / - रुपए जीएसटी सहित (अप्रतिदेय) निविदा जमा करने की तिथि / समय : 22.07.2020 से 05.08.2020 को 15.00 बजे तक निविदा खुलने की तिथि एवं समय : 05.08.2020 को 15.30 बजे तक विस्तृत जानकारी तथा इस संबंध में शुद्धिपत्र/परिशिष्ट (यदि कोई हो) के लिए कृपया

www.cwceprocure.com अथवा www.cewacor.nic.in लॉग ऑन करें।

Post Offer Advertisement Under Regulation 18(12) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended, with respect to the Open Offer to the Public Shareholders of

INGERSOLL-RAND (INDIA) LIMITED

Registered Office: First Floor, Subramanya Arcade, No. 12/1, Bannerghatta Road, Bengaluru 560 029 Tel: +91 80 4685 5100; Fax: +91 80 4169 4399; Website: https://www.irco.com

Open Offer for acquisition of up to 8,207,680 (Eight Million Two Hundred Seven Thousand Six Hundred Eighty) equity shares of face value INR 10 (Indian Rupees Ten only) each (the "Equity Shares") representing 26.00% of the Voting Share Capital of Ingersoll-Rand (India) Limited (the "Target Company") at a price of INR 642.63 (Indian Rupees Six Hundred Forty Two and Sixty Three Paise) per Equity Share (the "Offer Price"), under Regulation 3(1) read with Regulations 4 and 5(1) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended (the "SEBI (SAST) Regulations") from the Public Shareholders of the Target Company by Ingersoll Rand Inc. (formerly known as Gardner Denver Holdings, Inc.) (the "Acquirer") along with Ingersoll-Rand U.S. Holdco, Inc. (the "PAC 1") and Ingersoll-Rand Industrial U.S., Inc. (the "PAC 2") (PAC 1 and PAC 2 collectively referred to as the "PACs") in their capacity as the persons acting in concert with the Acquirer (the "Offer")

This Post Offer Advertisement (the "Post Offer Advertisement") is being issued by Citigroup Global Markets India Private Limited. the manager to the Offer (the "Manager to the Offer") for and on behalf of the Acquirer and the PACs, in compliance with Regulation 18(12) of the SEBI (SAST) Regulations with respect of the Offer.

This Post Offer Advertisement is to be read in continuation of, and in conjunction with: (a) the Public Announcement dated May 7 2019 (the "PA"), (b) the Detailed Public Statement which was published in Financial Express (English, all editions), Jansatta (Hindi all editions), Vishwavani (Kannada, Bangalore edition) and Navshakti (Marathi, Mumbai edition), on March 6, 2020 (the "DPS") (c) the Letter of Offer dated June 15, 2020 (the "LoF"); (d) the Dispatch Advertisement which was published in Financial Express (English, all editions), Jansatta (Hindi, all editions), Vishwavani (Kannada, Bangalore edition) and Navshakti (Marathi, Mumbai edition), on June 16, 2020; (e) the Pre-Offer Advertisement dated June 19, 2020; and (f) the Corrigendum to the DPS, the Draft Letter of Offer (dated March 16, 2020) and the LoF, which was published in Financial Express (English, all editions), Jansatta (Hindi, all editions), Vishwavani (Kannada, Bangalore edition) and Navshakti (Marathi, Mumbai edition), on June 22, 2020.

Unless otherwise specified, the capitalised terms used but not defined in this Post Offer Advertisement shall have the meaning assigned to them in the LoF.

The shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following information relating to the Offer:

Ingersoll-Rand (India) Limited Name of the Target Company

2. Name of the Acquirer(s) and the PACs: Ingersoll Rand Inc. (formerly known as Gardner Denver Holdings, Inc.) (Acquirer) Ingersoll-Rand U.S. Holdco, Inc. (PAC 1) Ingersoll-Rand Industrial U.S., Inc. (PAC 2)

Proposed in the DPS and the LoF

Actuals

Citigroup Global Markets India Private Limited Name of the Manager to the Offer Name of the Registrar to the Offer Link Intime India Private Limited

5. Offer details

a. Date of opening of the Offer : June 22, 2020, Monday b. Date of closure of the Offer July 3, 2020, Friday : July 17, 2020, Friday

6. Date of payment of consideration . Details of acquisition SI.No. Particulars

31.140.	raiticulais	r roposed in the Dr 5 and the Lor	Actuals
7.1	Offer Price ⁽¹⁾	INR 642.63	INR 642,63
7.2	Aggregate number of shares tendered	8,207,680 ⁽²⁾	1,741,798
7.3	Aggregate number of shares accepted	8,207,680(2)	1,741,798
7.4	Size of the Offer (Number of Equity Shares multiplied by Offer Price per Equity Shares)	INR 5,274,501,398.40	INR 1,119,331,648.74
7.5	Shareholding of the Acquirer and PACs before the PA (No. & %)		
	Acquirer		
	Number	Nil	Nil
	% of Voting Share Capital	Nil	Nil
	PAC 1	200.5	1000
	Number	Nil	Nil
	% of Voting Share Capital	Nil	Nil
	PAC 2		1
	Number	Nil	Nil
	% of Voting Share Capital	Nil	Nil
7.6	Shares acquired by way of agreements		
	Acquirer		
	Number	Nii ⁽³⁾	Nif ⁽³⁾
	% of Voting Share Capital	Nil ⁽³⁾	Nif ⁽³⁾
	PAC 1	100 to 10	A
	Number	Nil ⁽²⁾	Nif ⁽²⁾
	% of Voting Share Capital	Nil ⁽³⁾	Nii(X)
- 1	PAC 2		.15
	Number	23,360,000(3)	23,360,000 ⁽³⁾
	% of Voting Share Capital	73.9990 ²¹	73.9990 ^[3]
7.7	Shares acquired by way of the Offer		
	Acquirer		
	Number	8,207,680(2)	1,741,798
	% of Voting Share Capital	26.0000% ^[5]	5.5176%
	PAC 1	Income and the second s	11
	Number	Nil	Nil
	% of Voting Share Capital	Nil	Nil
	PAC 2	12	.15
	Number	Nil	Nil
	% of Voting Share Capital	Nii	Nil
7.8	Shares acquired by the Acquirer and the PACs after the DPS (other than pursuant to the Offer,		

20.4834% % of Voting Share Capital 26.0010% 0.0010™% 26.0010% (1) Offer Price of INR 642.63 (Indian Rupees Six Hundred Forty Two and Sixty Three Paise) per Offer Share, comprised a basic offer price of INR 592.02 (Indian Rupees Five Hundred Ninety Two Rupees and Two Paise) per Offer Share, calculated in accordance with Regulation 8(1) read with Regulation 8(3) of the SEBI (SAST) Regulations plus interest of INR 50.61 (Indian Rupees Fifty and Sixty One Paise) per Offer Share, computed at the rate of 10% per annum, for the period between April 30, 2019 and March 6, 2020, being the date of publication of the DPS, in terms of Regulation 8(12) of SEBI (SAST) Regulations.

NA

31,567,6804

99.9990 %

Pre-Offer

8,208,000

NA

Post Offer

3202

25,101,798

79.5166%¹⁸

Pre-Offer

8,208,000

Post Offer

6,466,202

(2) Assuming full acceptance of the Offer.

Number

as set out in paragraph 7.7 above)

· Number of Equity Shares acquired

Price of the Equity Shares acquired

Pre & post Offer shareholding of the public

Post Offer shareholding of the Acquirer and the PACs

% of the Equity Shares acquired

· % of Voting Share Capital

(3) There are no parties to an agreement directly acquiring any Equity Shares of the Target Company and no sellers that are selling any Equity Shares of the Target Company as this is an Offer triggered by an indirect acquisition of the Target Company. However, pursuant to the consummation of the Underlying Transaction, the PAC 2 held 23,360,000 (Twenty Three Million Three Hundred Sixty Thousand) Equity Shares, representing approximately 73.9990% of the Voting Share Capital of the Target Company. As a result, the Acquirer and the PAC 1, indirectly, through subsidiaries, held 23,360,000 (Twenty Three Million Three Hundred Sixty Thousand) Equity Shares, representing approximately 73.9990% of the Voting Share Capital of the Target Company.

⁴⁾Assuming full acceptance of offer of 8,207,680 (Eight Million Two Hundred Seven Thousand and Six Hundred Eighty) Equit Shares, the Acquirer to directly hold 8,207,680 (Eight Million Two Hundred and Seven Thousand and Six Hundred Eighty) Equity Shares representing 26% of the Voting Share Capital, and the PAC 2 (a subsidiary of the Acquirer and the PAC 1) to directly hold 23,360,000 (Twenty Three Million Three Hundred Sixty Thousand) Equity Shares representing 73,9990% of the Voting Share

⁽⁵⁾ Post completion of the Offer, the Acquirer directly holds 1,741,798 (One Million Seven Hundred Forty One Thousand and Seven Hundred Ninety Eight) Equity Shares representing 5.5176% of the Voting Share Capital, and the PAC 2 (a subsidiary of the Acquirer and PAC 1) directly holds 23,360,000 (Twenty Three Million Three Hundred Sixty Thousand) Equity Shares representing 73.9990% of the Voting Share Capital.

The Acquirer and the PACs, and their respective directors accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also for their obligations under the SEBI (SAST) Regulations, other than such information as has been obtained from public sources or information with respect to the Target Company which has been compiled from information published or provided by the Target Company as the case may be, or publicly available sources and which information has not been independently verified by the Acquirer, the PACs or the Manager to the Offer.

9. A copy of this Post Offer Advertisement is expected to be available on the respective websites of SEBI (www.sebi.gov.in), the Target Company (https://www.irco.com), the Registrar to the Offer (www.linkintime.co.in), the Manager to the Offer (https://www.online.citibank.co.in/rhtm/citigroupglobalscreen1.htm), BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com).

citi Citigroup Global Markets India Private Limited 1202, 12th Floor, First International Financial Centre, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400098,

Manager to the Offer

Maharashtra, India Tel: +91-22-61759999 Fax: +91-22-61759898 Website: https://www.online.citibank.co.in/rhtm/ citigroupglobalscreen1.htm Contact Person: Mr. Dheeraj Janakiraman

Email: ingersollrand.openoffer@citi.com

SEBI Registration Number: INM000010718

LINKIntime

Registrar to the Offer

Link Intime India Private Limited C 101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai-400083, Maharashtra, India Tel: + 91 22 4918 6170/6171/6200 Fax: +91-22-49186195 Website: www.linkintime.co.in

Contact Person: Mr. Sumeet Deshpande Email: ingersollrand.offer@linkintime.co.in SEBI Registration Number: INR000004058

Place: Mumbai Date: July 22, 2020

INGERSOLL RAND INC. (Acquirer)	INGERSOLL-RAND U.S. HOLDCO, INC. (PAC 1)	INGERSOLL-RAND INDUSTRIAL U.S., INC. (PAC 2)
Sd/-	Sd/-	Sd/-
Authorized Signatory	Authorized Signatory	Authorized Signatory

कॉर्पोरेट कार्यालयः कार्वी फाइनांसियल सर्विसेस लि. 705/706. 7वाँ तल. हॉलमार्क बिजनेस प्लाजा, संत डायनेश्वर मार्ग, गुरु नानक हॉस्पीटल के सामने, बान्द्रा (ई), मुम्बई-400051

सरफैसी अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना का प्रकाशन एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि निम्न ऋणधारकों/ गारन्टरों/ मार्टगैजरों ने कार्वी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड से उनके द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा वे मूलधन तथा ब्याज की अदायगी ने चूक की है तथा उनकी ऋण खाताओं को गैर प्रचालन परिसम्पत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) की धारा 13 (2) के अंतर्गर उनके अंतिम ज्ञात पते पर सचनाएं भेजी गई लेकिन वह अन-सर्ब्ड वापस लौट आई और इसीलिए सार्वजनिक सचना के माध्यम से उन्हें सचित किया ज रहा है।

1.क. श्री विक्की गुप्ता, मकान सं. 111, 2रा तल, पॉकेट-17, रोहिणी, सेक्टर-24, दिल्ली-110085 7065915/- सेक्टर-24, रोहिणी, दिल्ली 1.ख. श्री विक्की गुप्ता, सी/ओ मै. वी.जी. एण्टरप्राईजेज, 2841, गली पीपल महादेव, हौजकाजी (रुपए सत्तर निर्मित सम्पत्ति. भिम के माप क लाख पैंसठ विस्तार 60 वर्ग मीटर का सभी भाग 2. श्रीमती मोनिका गुप्ता, मकान सं. 111, 2रा तल, पॉकेट-17, रोहिणी, सेक्टर-24, दिल्ली-हजार नौ सौ तथा हिस्सा तथा चौहदीः उत्तरः प्लॉव पन्द्रह मात्र) नं. 110. दक्षिणः रोड. पर्वः प्लॉट नं 110085 3 श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता, मकान सं. 111, 2रा तल, पॉकेट-17, रोहिणी, सेक्टर-24, दिल्ली-110085 112, पश्चिमः प्रवेश उपरोक्त ऋणधारक (कों)/ अथवा उनके गारन्टर (रों)/ मार्टगैजर (रों) (जो भी लागु हो) को एतदुद्वारा निर्देश दिया जाता है कि इस सचना के प्रकाश-

की तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाये राशि का भूगतान करें अन्यथा सरफैसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत 60 दिनों की समापि के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी। पूनः आपका ध्यान सरफैसी अधिनियम की धारा 13 (8) के अंतर्गत आकृष्ट किया जाता है कि यदि बिक्री अथव अंतरण के निर्धारित तिथि से पूर्व किसी भी समय यदि आप हमारे द्वारा वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के साथ हमारी देयताओं का भूगता कर देते हैं तो हम प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री या अंतरण नहीं करेंगे तथा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के अंतरण अथवा बिक्री के लिये हम आगे कोई कार्रवा तिथि: 22.07.2020 प्राधिकृत अधिकार्र कार्वी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के लिये स्थान: नर्ड दिल्ली

SRF

एसआरएफ लिमिटेड

CIN: L18101DL1970PLC005197

पंजीकृत. कार्यालयः द गैलेरिया, डीएलएफ मयूर विहार, यूनिट नं. 236 एवं 237, दूसरा तल, मयूर प्लेस, मयूर विहार फेज 1 एक्स्टें., दिल्ली-110091 कॉर्पोरेट कार्यालयः ब्लॉक सी, सेक्टर 45, गुड़गांव-122003, टेली.: +91-124-4354400, फैक्स: +11-124-4354500,

ई-मेलः info@srf.com, वेबसाईटः www.srf.com

एसआरएफ लिमिटेड की उन्चासवीं वार्षिक साधारण सभा से संबंधित सचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले सभी प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों एवं कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वार जारी साधारण सर्क्युलर सं. 14/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 तिथि 13 अप्रैल, 2020 तथा 20/2020 तिथि 5 मई, 2020 तथा लागू होने वाले सभी सर्क्युलर्स के साथ पठित सूचीयन विनियमनों के अनुपालन में कम्पनी की 49वीं वार्षिक साधारण सभा (''एजीएम'') सोमवार, 17 अगस्त, 2020 को 11.00 बजे आईएसटी में वीडियो कान्फ्रेंसिंग (''वीसी'') के माध्यम से आयोजित की जायेगी जिसमें एजीएम आमंत्रण सुचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। सदस्यगण https://emeetings.kfintech.com पर वीसी के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिये सक्षम होंगे। सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम सुनिश्चित करने के लिये की

संबंधित सर्क्युलर्स के अनुपालन में वित्त वर्ष 2019-20 के वार्षिक रिपोर्ट तथा एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रति कम्पनी के ऐसे सभी सदस्यों को भेजी जायेगी जिनके ईमेल पते कम्पनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाईट www.srf.com तथा स्टॉक एक्सचैंजों की वेबसाईट अर्थात बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com तथा कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड (''के फिन टेक'') की वेबसाईट https://evoting.karvy.com पर भी उपलब्ध होंगे। जिन सदस्यों ने अपने ई मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, वे यूजर आईडी तथा पास्वर्ड के साथ सूचना की सॉफ्ट कॉपी तथा ई वोटिंग निर्देशों को प्राप्त करने के लिये लिंकः https://ris.kfintech.com/ email- registration पर क्लिक कर कम्पनी रजिस्ट्रार के पास अस्थाई रूप से अपना ई-मेल पता तथा मोबाईल नम्बर पंजीकृत करा सकते हैं। किसी प्रकार की पूछताछ के लिये सदस्य einward.ris@kfintech.com पर लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में धारित शेयरों के मामले में सदस्यगण डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट के पास तथा भौतिक पद्धति में धारित शेयरों के मामले में सदस्यगण डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट के पास तथा भौतिक पद्धति में धारित शेयरों के मामले में कम्पनी के रजिस्टार के पास भी अपने विवरणों को अद्यतन करा सकते हैं।

रिमोट वोटिंग (''रिमोट ई-वोटिंग'') की प्रक्रिया का विवरण एजीएम की सूचना में दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा (इन्स्टा पोल) भी एजीएम में उपलब्ध कराई जायेगी। सदस्यों से आग्रह है कि एजीएम की सचना में वर्णित विशेषकर एजीएम में भाग लेने के लिये निर्देशों, रिमोट ई-वोटिंग द्वारा

अथवा एजीएम के दौरान इन्स्टा पोल द्वारा मतदान करने की पद्धति से संबंधित टिप्पणियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें। सदस्यों से आग्रह है कि लाभांश के उद्देश्य से बैंक के अपने सम्पूर्ण विवरणों का पंजीकरण/अपडेट करा लें:

- इलेक्ट्रानिक पद्धति में यदि शेयर धारित हो तो अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास, तथा

- यदि शेयर भौतिक पद्धति से धारित हो तो i) सदस्यों के नाम, फोलियो संख्या, बैंक के विवरणों (बैंक खाता संख्या, बैंक तथा शाखा का नाम तथा पते, आईएफएससी, एमआईसीआर के विवरणों) से शामिल हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति, ii) पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित प्रति तथा iii) निरस्त किया गया चेक लीफ einward.ris@kfintech.com पर जमा कर कम्पनी के रजिस्टार के पास

एसआरएफ लिमिटेड के लिए

तिथि: 21.07.2020 स्थानः गुरुग्राम

रजत लखनपाल वीपी (कॉर्पोरेट अनुपालन) एवं कंपनी सचिव

GENESIS EXPORTS LIMITED

CIN: L26919WB1981PLC033906 "Chitrakoot" 10th Floor, 230A, A.J.C. Bose Road, Kolkata-700 020 **Tel:** +91 7604088814/15/16/17, **Fax:** +91 33 2287 0284 E-mail: genesis.exports@genesisexp.com, Website: www.genesisexp.com

FOUR) ("BUYBACK OFFER") FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF THE COMPANY OF FACE VALUE OF RS. 10/-(RUPEES TEN ONLY) EACH (EQUITY SHARES) REPRESENTING UP TO 24.99% OF THE TOTAL NUMBER OF ISSUED. SUBSCRIBED AND PAID UP EQUITY SHARES OF THE COMPANY, FROM ALL THE EQUITY SHAREHOLDERS BENEFICIAL OWNERS OF THE COMPANY WHO HOLDS EQUITY SHARES AS ON THE RECORD DATE i.e. FRIDAY. JUNE 19, 2020 ("RECORD DATE"), ON A PROPORTIONATE BASIS, THROUGH THE TENDER OFFER USING STOCK EXCHANGE MECHANISM ("TENDER OFFER"), AT A PRICE OF RS. 610/- (RUPEES SIX HUNDRED AND TEN ONLY) PER EQUITY SHARE ("BUYBACK PRICE") PAYABLE IN CASH FOR AN AGGREGATE AMOUNT OF UP TO RS. 10,97,23,140/- (RUPEES TEN CRORES NINETY SEVEN LAKHS TWENTY THREE THOUSAND ONE HUNDRED FORTY ONLY) ("BUYBACK SIZE") EXCLUDING THE TRANSACTION COST ("BUYBACK") THROUGH TENDER OFFER ROUTE UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("BUYBACK REGULATIONS").

This advertisement ("Advertisement") is being issued by the Company pursuant to the circular issued by SEBI vide circular no. SEBI/CIR/CFD/DCR1/CIR/P/2020/83 dated May 14, 2020 ("Relaxation Circular"). This is to be read together with: (a) the Public Announcement dated Thursday, June 04, 2020 ("PA") published on Monday, June 08, 2020 in The Financial Express (English) all editions, Jansatta (Hindi) all editions, Sukhabar (Bengali) regional edition and (b) the Letter of Offer dated Thursday, July 16, 2020 ("LOF").

Capitalised terms used in this Advertisement and not defined herein shall have the same meaning as ascribed in the LOF. 1. Dispatch of Letter of Offer

The Company through the Registrar to the Buyback Offer, on 21.07.2020, has dispatched the Letter of Offer along with the

Tender Form to all the Eligible Shareholders through electronic means (whose email ids are registered with the Company / Depository), Registered Post, Speed Post or Courier (in case if Registered Post & Speed Post is not available). 2. Availability of Letter of Offer along with Tender Form

An Eligible Shareholder may access the Letter of Offer along with tender form, on the website of the Company i.e., (www.genesisexp.com), the Registrar to the Buyback offer i.e., (www.mdpl.in), the Stock Exchange i.e., (www.cse-india.com) and the Manager to the Buyback offer i.e., (www.vccorporate.com) and is expected to be available on the website of the Securities and Exchange Board of India i.e., (www.sebi.gov.in). Further, in case of non-receipt of LOF, the application can be made on plain paper in writing signed by the shareholder during

the Tendering Period, i.e., from Tuesday, July 28, 2020 to Monday, August 10, 2020, For detailed procedure for tendering Equity shares and settlement, please refer paragraph 20 "Procedure for tendering Equity shares and Settlement" starting on Page 25 of LOF 3. Brief Schedule of Activities

The schedule of major activities is set forth below:

ACTIVITY	DATE
Date of Board Meeting Approving the Proposal of The Buyback	Wednesday, January 22, 2020
Date of declaration of results of the Postal ballot for special resolution by the equity shareholders of the Company, approving the Buyback Offer.	Thursday, June 04, 2020
Date of Public Announcement for the buyback	Monday, June 08, 2020
Record date for determining the Buyback entitlement and the names of the eligible shareholders	Friday, June 19, 2020
Date of Opening of the Buyback Offer	Tuesday, July 28, 2020
Date of Closing of the Buyback Offer	Monday, August 10, 2020
Last Date of verification by the Registrar	Wednesday, August 12, 2020
Last date of providing acceptance to the Stock Exchange by the Registrar	Tuesday, August 18, 2020
Last date of Settlement of Bids on the Stock Exchange	Wednesday, August 19, 2020
Last date of dispatch of Share certificate(s)/return of unaccepted demat shares by	Wednesday, August 19, 2020
Stock Exchange to Selling Member	
Last date3 of Extinguishment of equity shares	Wednesday, August 26, 2020

4. CONTACT DETAILS

Company	Registrar to the Buyback Offer	Manager to the Buyback Offer
Genesis Exports Limited	Maheshwari Datamatics Private	VC Corporate Advisors Private Limited
CIN: L26919WB1981PLC033906	Limited,	CIN: U67120WB2005PTC106051
Contact Person : Ms. Nidhi Rathi,	CIN: U20221WB1982PTC034886	Contact Person : Ms. Urvi Belani /
Company Secretary & Compliance	Contact Person : Mr. S. Rajagopal	Mr. Premjeet Singh
Officer, "Chitrakoot" 10th Floor, 230A,	23, R. N. Mukherjee Road, 5th Floor,	31, Ganesh Chandra Avenue, 2nd Floor
A.J.C. Bose Road, Kolkata- 700 020 Tel.	Kolkata – 700 001	Suite No. –2C, Kolkata-700 013,
No. +91 7604088814/15/16/17, Fax No.	Tel. No.: 033 2248 2248	Tel. No.: 033-2225 3940,
+91 33 2287 0284,	Fax No.: 033 2248 4787	Fax No.: 033 2225 3941,
Website:- www.genesisexp.com,	Email Id: mdpldc@yahoo.com	Email ld: mail@vccorporate.com
Email: genesis.exports@genesisexp.com	Website: www.mdpl.in	Website: www.vccorporate.com

5. OTHER INFORMATION

a. The information contained in this Advertisement is in accordance with the Relaxation Circular.

b. Details relating to the procedure for tendering the Equity Shares are more particularly set out in the LOF.

c. The Advertisement will also be available on the websites of the Company i.e., www.genesisexp.com, manager to the Buyback Offer i.e., www.vccorporate.com, and the registrar to the Buyback Offer i.e., www.mdpl.in and is expected to be available on the Securities and Exchange Board of India i.e., www.sebi.gov.in and the Calcutta Stock Exchange Limited i.e., www.cse-india.com

6. **DIRECTORS RESPONSIBILITY**

Date: 21.07.2020

As per Regulation 24(i)(a) of the Buy-Back Regulations, the Board accepts responsibility for the information contained in this Advertisement and confirms that such document contains true, factual and material information and does not contain any misleading information

For and on behalf of the Board of Directors of Genesis Exports Limited Ishita Jhunjhunwala

Whole Time Director

DIN: 08325065

Ajit Jhunjhunwala Director DIN: 00111872

Nidhi Rathi **Company Secretary** ACS No. 32449

Adfactors 140

www.readwhere.com